



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 320]  
No. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1984/श्रावण 19, 1906  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1984/SRAVANA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1984

सं० 219/84-सीमा शुल्क

सं० का० नि० 605 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 234/79 सीमा शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979 को अधिनियमित करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 47 के अन्तर्गत आने वाले अवशिष्ट कागज को जब उसका भारत में आयात कागज बनाने में उपयोग के लिए लुगदी के विनिर्माण के लिए किया जाए—

(क) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त सीमा शुल्क से, और

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के लिए जो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर विहित करे, बंधपत्र का निष्पादन करके स्वयं को इस बाबत आबद्ध करे कि वह अवशिष्ट कागज की उतनी मात्रा की बाबत जितनी सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग की गई प्रमाणित नहीं होती है, आयात करते समय इसमें अन्तर्विष्ट छूट न होने पर ऐसी मात्रा पर उद्घाटनीय शुल्क के बराबर रकम का, मांग की जाने पर, संदाय करेगा।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन
1	2

1. सफेद रही कागज की कतरनें (गेबिंग तथा कटिंग)।
2. कंप्यूटर प्रिंट आउट और अन्य प्रकार की कंटीन्युअस स्टेशनरी।
3. सभी किस्मों की फ्राफ्ट और नालीदार कतरनें/अपशिष्ट/डिम्बे/बैले, जिसके अन्तर्गत बोरा फ्राफ्ट अपशिष्ट भी है।

1	2
4. सफेद और रंगीन खाता/पत्र अपशिष्ट।	
5. पुराने और निश्चित संख्या से अधिक छप्पे अखबार/मैगजीन और मैटेलीज।	
6. बोर्ड कतरने और अपशिष्ट।	
7. सभी किस्मों के टेबुलेशन कार्ड और उनके अपशिष्ट।	
8. कार्यालय अपशिष्ट।	
9. रंगीन रूई कागज की कतरने/बोर्डिंग और कटिंग।	
10. सफेद और रंगीन कतरने।	
11. टेलिफोन तथा व्यवसायिक डायरेक्टरिया।	
12. मनीषा अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत दूध के कार्टन भी हैं।	

[फा० सं० 355/284/84-सी०शु-1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1984

No. 219/84-CUSTOMS

G.S.R. 605(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 234/79-Customs, dated the 5th December, 1979, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts waste paper specified in column (2) of the Schedule annexed hereto and falling within Chapter 47 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975), when imported into India for the manufacture of pulp for use in paper making—

- from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule; and
- from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act:

Provided that the importer shall, by the execution of a bond, in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such quantity of waste paper as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein at the time of importation.

## TABLE

Sl. No.	DESCRIPTION
1	2
1.	White shaving and cuttings.
2.	Computer Print out and other types of continuous stationery.
3.	Kraft and Corrugated cutting/Waste/Boxes/Bags of all varieties including sack kraft waste.
4.	White and Coloured ledger/letter waste.

1	2
5.	Old and over issue newspaper/magazines/catalogues.
6.	Board cuttings and waste.
7.	Tabulating cards and its waste of all varieties.
8.	Office Waste.
9.	Coloured shaving and cuttings.
10.	White and coloured cuttings.
11.	Telephone and Trade Directories.
12.	Manila Waste including milk cartons.

[F.No. 355/284/84-CUS. I]

## अधिसूचना

सं० 220/84-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 606 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विभाग, 1984 (1984 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 131/84-सीमा-शुल्क, तारीख, 11-5-84 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 143 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम सं० 221 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“222 सं० 219/84 सीमा-शुल्क तारीख 10 अगस्त, 1984”

[फा० सं० 355/284/84-सी०शु-1]

एम० एन० बिस्वास, अवर सचिव

## NOTIFICATION

No. 220/84-CUSTOMS

G.S.R. 606 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act 1984 (21 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 131/84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely :—

In the Schedule to said notification, —

(a) Serial No. 143 and the entry relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 221 and the entry relating thereto the following Serial No. and entry shall be inserted, namely:—

“222 No. 219/84-Customs dated the 10th August, 1984.”

[F.No. 355/284/84-Cus. I]  
M.N. BISWAS, Under Secy.